

**DIPLOMA PROGRAMME IN VALUE  
ADDED PRODUCTS FROM FRUITS AND  
VEGETABLES**

00610

Term-End Examination

June, 2010

**BPVI-007 : FOOD QUALITY TESTING  
AND EVALUATION**

*Time : 2 hours*

*Maximum Marks : 50*

*Note : Attempt any five questions. Question no.1 is compulsory. All questions carry equal marks.*

1. Define the following terms. Attempt *any ten* :  $10 \times 1 = 10$
- (a) Flavour
  - (b) BIS
  - (c) ISO
  - (d) Chemical hazards
  - (e) HACCP
  - (f) Ultimate analysis
  - (g) Weight
  - (h) TCD
  - (i) Frequency
  - (j) FPO
  - (k) TQM
  - (l) Mono chromotor

2. (a) Explain the important quality characteristics of food. 5
- (b) Enumerate measures to prevent food poisoning. 5
3. (a) What are the functions of a quality control department in a food processing plant ? 5
- (b) What is an adulterated food under the PFA Act ? 5
4. (a) Explain any two important parts of the PFA rules related to food preservation and processing industry. 5
- (b) What are the important features of FPO ? 5
5. (a) Enumerate two important voluntary food certification agencies in the country. What are all their certification marks ? 5
- (b) What is Codex Alimentaries commission ? 2
- (c) Enumerate the salient features of the PFA Act. 3
6. (a) Explain different types of food hazards. 5
- (b) Give the principles of HACCP. 5
7. (a) What do you understand by ISO certification ? 5
- (b) Describe the procedure for determining 'Coliform Count'. 5

8. (a) Describe the basic components of an absorption spectroscope. 5
- (b) Explain the components of Abbe' refractometer and the refractive index of a solution.
-

फलों एवं सब्जियों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के  
उत्पादन पर आधारित डिप्लोमा कार्यक्रम

सत्रांत परीक्षा

जून, 2010

बी.पी.वी.आई.-007 : खाद्य गुणवत्ता परीक्षण  
एवं मूल्यांकन

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के समान अंक है।

1. निम्नलिखित में से किन्हीं दस को परिभाषित कीजिए :  $10 \times 1 = 10$

- (a) गंध
- (b) बी आई एस
- (c) आई एस ओ
- (d) रासायनिक खतरे
- (e) हैसप (HACCP)
- (f) अंतिम विश्लेषण
- (g) भार
- (h) टी सी डी
- (i) आवृत्ति
- (j) एफ पी ओ
- (k) टी क्यू एम
- (l) मोनो क्रोमेटर

2. (a) खाद्यपदार्थ की गुणवत्ता संबंधी महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5
- (b) खाद्य विषाक्तता की रोकथाम संबंधी उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। 5
3. (a) खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रकार्य क्या हैं? स्पष्ट कीजिए। 5
- (b) पी एफ ए अधिनियम के अंतर्गत अपमिश्रित खाद्यपदार्थ क्या है? 5
4. (a) खाद्य परिरक्षण एवं प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित पी एफ ए नियमों के किन्हीं दो महत्वपूर्ण भागों का वर्णन कीजिए। 5
- (b) एफ पी ओ की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? 5
5. (a) देश की किन्हीं दो महत्वपूर्ण स्वैच्छिक खाद्य प्रमाणीकरण एजेंसियों को सूचीबद्ध कीजिए। इनके प्रमाणीकरण चिह्न क्या हैं? 5
- (b) कोडेक्स एलिमेन्टेरियस आयोग क्या है? 2
- (c) पी एफ ए अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। 3
6. (a) खाद्य खतरों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 5
- (b) हैसप (HACCP) के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। 5

7. (a) आई एस ओ प्रमाणीकरण से आप क्या समझते हैं? 5
- (b) 'कॉलिफार्म गणना' निर्धारण की कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए।
8. (a) अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोप के बुनियादी घटकों का वर्णन 5  
कीजिए।
- (b) ऐबे(Abbe) अपवर्तनांकमापी के घटकों को स्पष्ट कीजिए  
और बताइए कि घोल के अपवर्तक सूचकांक को मापने  
में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है?
-